



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1380]
No. 1380]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2007/कार्तिक 17, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 8, 2007/KARTIKA 17, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2007

(आयकर)

का.आ. 1901(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के अधिसूचना सं. का.आ. 1386(अ), 10 अगस्त, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :-

1. उक्त अधिसूचना में,—

(i) शब्द “शक्तियों का प्रयोग करते हुए” से शुरू होने वाले तथा शब्द “केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड” एतद्वारा से समाप्त होने वाले भाग के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 14 सितम्बर, 2001 की सं. का.आ. 882(अ) के तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा”;

(ii) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

अनुसूची

क्रम संख्या	आयकर प्राधिकारियों के पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग	शक्तियाँ एवं कार्य
1	2	3	4	5	6
1.	आयकर आयुक्त (टी डी एस), चंडीगढ़	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ संघ राज क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	<p>(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति ।</p> <p>(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।</p> <p>(घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति।</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियाँ एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियाँ एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई हैं ।</p>

2.	आयकर आयुक्त (टी डी एस), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	<p>(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति ।</p> <p>(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (1) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।</p> <p>(घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति ।</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कॉलम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई हैं ।</p>
3.	आयकर आयुक्त (टी डी एस), जयपुर	जयपुर	राजस्थान राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	<p>(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति ।</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड.,</p>

					(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है । (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है । (घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति ।	195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कालम (5) में उल्लिखित तथ्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई हैं ।
4.	आयकर आयुक्त (टी डी एस), अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात राज्य तथा दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति । (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है । (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते	आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर-कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य	

				व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है । (घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति।	कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई हैं ।
5.	आयकर आयुक्त(टी डी एस) मुम्बई	मुम्बई	महाराष्ट्र राज्य में वृहन् मुम्बई तथा नवी मुम्बई नगर निगम की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	<p>(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति ।</p> <p>(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।</p> <p>(घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई हैं ।</p>

6.	आयकर आयुक्त (टी डी एस), पुणे	पुणे	का.आ.सं. 732 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2001 तथा का.आ.सं. 733 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2001 में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य में मु.आ.आ.; पुणे, मु.आ.आ.- II, पुणे, मु.आ.आ. नासिक तथा मु.आ.आ. ठाणे के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रादेशिक क्षेत्र	1. (क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति । (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है । (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है । (घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति।	आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कालम (5) में उल्लिखित तयक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई हैं ।
7.	आयकर आयुक्त (टी डी एस), नागपुर	नागपुर	का.आ.सं. 732 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2001 तथा का.आ.सं. 733 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2001 में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य	(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति । (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने	आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग,

			में मु.आ.आ., नागपुर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रादेशिक क्षेत्र ।	वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है । (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है । (घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति ।	1961 तथा 197 से भिन्न कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय करधान) को अभी तक सौंपी गई हैं ।
8	आयकर आयुक्त (टी डी एस), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक तथा गोवा राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति । (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है । (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार	आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक

				का मूल स्थान कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है । (घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति ।	(अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई है ।
9.	आयकर आयुक्त (टी डी एस) कोचीन	कोचीन	केरल राज्य तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	<p>(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति ।</p> <p>(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।</p> <p>(घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति ।</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई हैं ।</p>

10.	आयकर आयुक्त (टी डी एस) चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	<p>(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति ।</p> <p>(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।</p> <p>(घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति ।</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कॉलम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई हैं ।</p>
11	आयकर आयुक्त (टी डी एस) हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	<p>(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति ।</p> <p>(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न</p>

				का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	कालम (5) में उल्लिखित तथ्याक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई हैं।
				(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है। (घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति।	आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी
12.	आयकर आयुक्त (टी डी एस), मुवनेश्वर	मुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र।	(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति। (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है।	

					तक सौंपी गई हैं।	
13.	आयकर आयुक्त (टी डी एस) कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य और अंडमान एवं निकोबार दीव समूह संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले राज्य।	<p>(घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति।</p> <p>(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति।</p> <p>(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और छिन्ने के कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है।</p> <p>(घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति।</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कॉलम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई हैं।</p>	
14.	आयकर आयुक्त	भोपाल	(i) मध्य प्रदेश राज्य	(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न	क) कॉलम (4) में (i) में	

(टी डी एस) भोपाल	की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र । (ii) छत्तीसगढ़ राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति ।	उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के लिए ।
		<p>(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।</p> <p>(घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति ।</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य कॉलम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय-XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य शामिल हैं।</p> <p>(ख) कॉलम (4) में (ii) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के लिए ।</p> <p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कॉलम (5) में उल्लिखित</p>

16.	आयकर आयुक्त (टी डी एस), कानपुर	कानपुर	<p>का.आ.सं. 732 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2001 तथा का.आ.सं. 733 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2001 तथा का.आ.सं. 185 (अ) दिनांक 12 फरवरी, 2007 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्य में मु.आ.आ., कानपुर मु. आ. गंजियाबाद तथा मु. आ.आ. देहरादून के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रादेशिक क्षेत्र ।</p>	<p>(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति ।</p> <p>(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।</p> <p>(घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति ।</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ तथा 197 से भिन्न कॉलम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य जो आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को अभी तक सौंपी गई हैं ।</p>
17.	आयकर आयुक्त (टी डी एस), पटना	पटना	<p>बिहार तथा झारखंड राज्यों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।</p>	<p>(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम(4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति ।</p> <p>(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें भिन्न कॉलम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में</p>

				<p>वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है।</p> <p>(घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति।</p>	<p>उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य शामिल हैं।</p>
18.	आयकर आयुक्त (टी डी एस) गुवाहाटी	गुवाहाटी	<p>असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम में तथा त्रिपुरा राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र।</p>	<p>(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न तथा कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति।</p> <p>(ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति और जिनके कारोबार का मूल स्थान कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कम्पनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार</p>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य जिसमें भिन्न कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय- XIII, XXI, XXII तथा XXIII के अन्तर्गत संबंधित शक्तियां एवं कार्य शामिल हैं।</p>

				का मूल स्थान कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है। (घ) कॉलम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने अथवा स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अन्य कोई व्यक्ति।	
--	--	--	--	---	--

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 272/2007/फा. सं. 187/11/2007-आ.क.नि.-1]

जगदीप गोयल, निदेशक

टिप्पणी:-

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 3 जुलाई, 2001 की का.आ. सं. 732 (अ) के तहत प्रकाशित की गई तथा 31 मई, 2007 की का.आ. सं. 857 (अ) के तहत अन्तिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION****New Delhi, the 8th November, 2007
(INCOME-TAX)**

S.O. 1901(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, (Central Board of Direct Taxes) number S.O 1386 (E), dated the 10th August, 2007, namely:-

1. In the said notification, -
 - (i) for the portion beginning with the words, "In exercise of the powers" and ending with the words " the Central Board of Direct Taxes, hereby", the following shall be substituted, namely:-

" In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes vide number S.O. 882(E) dated the 14th September 2001, the Central Board of Direct Taxes, hereby";
 - (ii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Serial number.	Designation of Income-tax authorities.	Head quarter.	Territorial area.	Persons or class of persons.	Powers and functions.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commissioner of Income-tax (IDS), Chandigarh	Chandigarh	Areas lying within the territorial limits of States of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Union territory of Chandigarh.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).</p> <p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and</p>	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).
2.	Commissioner of Income-tax (IDS), Delhi	Delhi	Areas lying within the territorial limits of National Capital territory of Delhi.		All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII

				whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4):	and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).
				(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	
3.	Commissioner of Income-tax Jaipur	Jaipur	Areas lying within the territorial limits of State of Rajasthan.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column 4; (c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).

4.	Commissioner of Income-tax (TDS), Ahmedabad	Ahmedabad	Areas lying within the territorial limits of State of Gujarat and Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).</p>	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).
5.	Commissioner of Income-tax Mumbai	Mumbai	Areas lying within the territorial limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai and Navi Mumbai in the State of Maharashtra.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of</p>	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII-C, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).

				business in the area mentioned in column (4):	Taxation).
				(d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	
6.	Commissioner of Income-tax Pune	Pune	Territorial area under the jurisdiction of CCIT, Pune, CCIT-II, Pune, CCIT-Nasik and CCIT-Thane in the State of Maharashtra, specified in number S.O. 732(E) dated the 31 st July, 2001 and S.O.733(E) dated the 31 st July, 2001.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).</p>	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).
7.	Commissioner of Income-tax Nagpur	Nagpur	Territorial area under the jurisdiction of CCIT, Nagpur in the State of Maharashtra, specified in	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and</p>	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII

			number S.O. 732(E) dated the 31 st July, 2001 and S.O.733(E) dated the 31 st July, 2001.	<p>whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4):</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4):</p> <p>(d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).</p>	and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).
8.	Commissioner of Income-tax (TDS), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of States of Karnataka and Goa.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4):</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column 4;</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4):</p> <p>(d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).</p>	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).

9.	Commissioner of Income-tax (IDS), Cochin	Cochin	Areas lying within the territorial limits of State of Kerala and Territory of Lakshadweep.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).</p>	<p>All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).</p>
10.	Commissioner of Income-tax (IDS), Chennai	Chennai	Areas lying within the territorial limits of State of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of</p>	<p>All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).</p>

				business in the area mentioned in column (4); (d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	Taxation).
11.	Commissioner of Income-tax (TDS), Hyderabad	Hyderabad	Areas lying within the territorial limits of State of Andhra Pradesh.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column 4;</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).</p>	<p>All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).</p>
12.	Commissioner of Income-tax (TDS), Bhubaneswar	Bhubaneswar	Areas lying within the territorial limits of State of Orissa.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within</p>	<p>All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in</p>

					the territorial area mentioned in column 4; (c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).
13.	Commissioner of Income-tax (TDS), Kolkata	Kolkata	Areas lying within the territorial limits of States of West Bengal, Sikkim and Union territory of Andaman and Nicobar Islands.		(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).
14.	Commissioner of Income-	Bhopal	(i) Areas lying within the		(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income	a) For the territorial area mentioned at (i) in column

	tax (TDS), Bhopal		territorial limits of State of Madhya Pradesh (ii) Areas lying within the territorial limits of State of Chhatisgarh	<p>from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).</p>	<p>(4): All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5).</p> <p>(b) For the territorial area mentioned at (ii) in column (4):</p> <p>All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).</p> <p>All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under</p>
15.	Commissioner of Income-tax (TDS), Lucknow	Territorial area under jurisdiction of	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing		

	Lucknow		CCIT, Lucknow, CCIT, Allahabad and CCIT Bareilly in the State of Uttar Pradesh, specified in number S.O. 732(E) the 31 st July, 2001 and S.O.733(E) dated the 31 st July, 2001.	<p>within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column 4;</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).</p>	Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961 including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5).
16.	Commissioner of Income-tax (TDS), Kanpur	Kanpur	Territorial area under the jurisdiction of CCIT, Kanpur, CCIT, Ghaziabad and CCIT Dehradun in the State of Uttar Pradesh and Uttaranchal, specified in number S.O. 732(E) dated the 31 st July, 2001, S.O.733(E) dated 31.7.2001 and S.O. 185(E) dated the	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) any other person responsible for</p>	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income-tax (International Taxation).

17.	Commissioner of Income-tax (IDS), Patna	Patna	12th February, 2007.	Areas lying within the territorial limits of States of Bihar and Jharkhand.	deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4). (a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5).
18.	Commissioner of Income-tax (IDS), Guwahati	Guwahati	Areas lying within the territorial limits of States of Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Tripura.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5).	

					<p>(c) persons being companies as defined under clause (17) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) any other person responsible for deducting tax at source or collecting tax at source under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4).</p>
--	--	--	--	--	---

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 272/2007/F. No. 187/11/2007-ITA-1]

JAGDEEP GOEL, Director

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 732(E) dated the 3rd July, 2001 and lastly amended vide S.O. number 857(E) dated the 31st May, 2007.